

प्रेषक,

ओम प्रकाश
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड,
श्रीनगर (गढ़वाल)।

तकनीकी शिक्षा विभाग

देहरादून : दिनांक : ०१ जनवरी, 2018

विशय: एन0टी0पी0सी0 सहायतित राजकीय पॉलीटेक्निक जोशीमठ चमोली के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में ₹445.28 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-195/XLI-1/2015-55/2014, दिनांक 12 मार्च, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एन0टी0पी0सी0 सहायतित राजकीय पॉलीटेक्निक जोशीमठ चमोली के भवन निर्माण हेतु ₹1541.41 लाख की सैद्धान्तिक एवं प्रशासनिक स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी।

2- इस संदर्भ में समूह महाप्रबन्धक तपोवन विष्णुगाड एवं लाता तपोवन हॉट्रोपावर प्रोजेक्ट, जाशीमठ द्वारा अपने पत्रांक एन0टी0पी0सी0/आर0एण्डआर0/2017, दिनांक 28.09.2017 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 31.03.2017 को उक्त योजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में ₹445.28 लाख धनराशि निर्गत किये गये है।

3- इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 123/XXVI/छः(2)/2009 भाग-1 टी0सी0 दिनांक 31.05.2017 के क्रम में नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन से प्रश्नगत योजना के निर्माण की तकनीकी जांच करायी गयी। नियोजन विभाग द्वारा पत्र संख्या 1761/73, रा0यो0आ0/यू0पी0आर0एन0/2017, टी0सी0, दिनांक 22.12.2017 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसके द्वारा प्रथम दृष्टया गुणवत्ता मानकानुसार संतोषजनक पायी गयी है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के निर्माण कार्यो हेतु द्वितीय किश्त के रूप में ₹445.28 लाख शासनादेश संख्या: 195/XLI-1/2015-55/2014, दिनांक 12 मार्च, 2015 के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यदायी संस्था उ0प्र0रा0नि0इ0काई-5, देहरादून को ₹445.28 लाख धनराशि अवमुक्त करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 51 (1)/XLI-(1)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी चमोली।
4. इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-5, देहरादून।
5. एन0टी0पी0सी0, जोशीमठ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(गोविन्द सिंह बिष्ट)
उप सचिव।